



सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttarakhand

e-Stamp

VERIFIED
LOCKED

Certificate No. : IN-UK30596110398890W
Certificate Issued Date : 06-Jul-2024 04:57 PM
Account Reference : NONACC (SV)/ uk1377204/ HARIDWAR/ UK-HD
Unique Doc. Reference : SUBIN-UKUK137720467906547736289W
Purchased by : ETH INFRA PVT LTD
Description of Document : Article 5 Agreement or Memorandum of an agreement
Property Description : VILLAGE- BHOOPATWALA KALAN, HARIDWAR
Consideration Price (Rs.) : 9,31,79,000
(Nine Crore Thirty One Lakh Seventy Nine Thousand only)
First Party : PARMINDER KUMAR
Second Party : ETH INFRA PVT LTD
Stamp Duty Paid By : ETH INFRA PVT LTD
Stamp Duty Amount(Rs.) : 46,59,000
(Forty Six Lakh Fifty Nine Thousand only)



Please write or type below this line

Paschim

Rajesh Saini

Hindia

IRID

0023054988

Statutory Alert:


1. The authenticity of this Stamp certificate should be verified at www.eindiaestamp.com or using e-Stamp Mobile App of Stock Holding.
2. Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website / Mobile App renders it invalid.
3. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.

COLLABORATION AGREEMENT DEED


Aadhar No.
2176 2736 8024
PAN- AYEPK9751C



Aadhar No.
9264 3809 2576
PAN- AYFPS3246K



Aadhar No.
5568 3172 8801
PAN- AHCPM2764J



SAVITA RAWAT
Advocate
Reg. No. UK 103/2017

SAVITA RAWAT
Advocate
Reg. No. UK 103/2017

SAVITA RAWAT
Advocate
Reg. No. UK 103/2017

मैं कि परमिन्द्र कुमार (PAN-AYEPK9751C) (उम्र 51 वर्ष) पुत्र श्री इन्द्र दास निवासी 82 उत्तम बस्ती भूपतवाला साधुबेला, तहसील व जिला हरिद्वार का हूँ। (मोबाइल नं० 7060197401)
.....(मू-स्वामी) (प्रथम पक्ष)

व

ईटीएच इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड (PAN-AADCE3944P) पंजीकृत कार्यालय पता 9 व 10, तीसरी मंजिल, पर्ल ओमैक्स, नेताजी सुभाष पैलेस, पीतमपुरा नई दिल्ली 110034 द्वारा श्री राजेश सैनी (निदेशक), (DIN No- 3570448) (उम्र 45 वर्ष) पुत्र रघुबीर सिंह सैनी निवासी 406/1, इंद्रा कॉलोनी, शास्त्री मार्ग, रोहतक, हरियाणा व श्री हरिमोहन शर्मा (निदेशक), (DIN No- 01796317) (उम्र 46 वर्ष) पुत्र श्री जागे राम शास्त्री, निवासी शास्त्री भवन, हिल बाईपास रोड, खड़खड़ी हरिद्वार उत्तराखण्ड (ईटीएच इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड CIN No- U45400DL2013PTC253562 है, जिसे 04.06.2013 को पंजीकृत किया गया था)
.....(डेवलपर) (द्वितीय पक्षगण)

स्टाम्प शुल्क हेतु मालियत 9,31,79,000/- रुपये

स्टाम्प शुल्क मु0- 46,59,000/- रुपये

भूमि का क्षेत्रफल 3549.66 वर्गमीटर

भूमिदर 25,000/- प्रति वर्गमीटर। वर्णित संपत्ति पर रास्ता 5 मीटर से अधिक व 12 मीटर से कम होने के कारण भूमिदर पर 5 प्रतिशत की वृद्धि करके भूमिदर 26,250/- रुपये प्रति वर्गमीटर से मूल्यांकन किया गया है।

भूमिदर पृष्ठ 23 क्रमांक 05 का E-7 पर अंकित है।

जो स्थित- उत्तम बस्ती, ग्राम भूपतवाला कलां परगना ज्वालापुर तहसील व जिला हरिद्वार अन्दर सीमा नगर निगम हरिद्वार है।

Varma

Rajesh Saini

Harimohan Sharma

1. यह कि उपर्युक्त भूमि पर परियोजना का सम्पूर्ण विकास और सन्निर्माण विकासकर्ता द्वारा अपनी लागत पर पूर्णतः किया जायेगा।
2. यह कि विकासकर्ता, परियोजना को और साथ ही परियोजना में विकसित और सन्निर्मित इकाईयों का विज्ञापन और विक्रय करेगा। विकासकर्ता आशयित क्रेताओं से धन संग्रहीत करेगा, उन्हें आवंटन पत्र जारी करेगा, आवंटियों/क्रेताओं के पक्ष में विक्रय के लिए अनुबन्ध निष्पादित करेगा और परियोजना में विकसित इकाईयों का कब्जा हस्तगत करेगा।
3. यह कि अन्य सभी अपेक्षित अनुमोदन/स्वीकृतियाँ/अनापत्तियाँ विकासकर्ता द्वारा प्राप्त की जायेंगी और यदि कोई अनुमोदन भू-स्वामी द्वारा प्राप्त किये जाने हैं तो उससे सम्बन्धित व्यय, समस्त अपेक्षित कार्रवाई किये जाने के साथ विकासकर्ता द्वारा वहन किये जायेंगे।
4. यह कि अपने सम्बन्धित आय पर आयकर दायित्व या पूँजी लाभ कर इत्यादि लागू कानूनों के अनुसार क्रमशः भू-स्वामी तथा विकासकर्ता द्वारा वहन किये जायेंगे।
5. यह कि भू-स्वामी इस अनुबन्ध के माध्यम से विकासकर्ता को या इस सम्बन्ध में अपने प्राधिकृत हस्ताक्षरी को कथित भूमि में विकसित की जाने वाली भूसम्पदा परियोजना का पंजीकरण भू-सम्पदा (विनियम और विकास) अधिनियम, 2016 और उसके अधीन बनाये गये नियमों तथा विनियमों के अधीन उत्तराखण्ड भू-सम्पदा नियामक प्राधिकरण में करने हेतु आवेदन करने के लिए प्राधिकृत करता है।
6. यह कि भू-स्वामी सहमत है/है कि भू-सम्पदा परियोजना के विकास के लिए विकासकर्ता को भूमि का कब्जा हस्तगत किया जा रहा है।
7. यह कि परियोजना के तीव्र विकास और कुशल समापन के लिए, भू-स्वामी सभी भागों से मुक्त और पूर्ण अधिकार सहित उक्त भूमि को उपलब्ध करायेगा। नीचे बिन्दु में उपबन्धित शर्तों और निर्बन्धनों के अधीन विकासकर्ता बैंकों तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त करने के हकदार होंगे।

यह कि वित्तीय प्रयोजनों के लिए अपेक्षित किसी प्रकार की सुरक्षा का, (चाहे वह प्राथमिक हो या द्वितीयक) विकासकर्ता (ओं) द्वारा प्रबन्ध किया जायेगा। भू-स्वामी अपनी ओर से एतद्वारा वचन देता है कि वह परियोजना के विकास कार्य, जैसा इस अनुबन्ध में परिकल्पित किया गया है, के वित्त पोषण को सुकर बनाने के लिए न्याय संगत बन्धक अधिभार सृजित कर, विकासकर्ता (ओं) द्वारा यथानिर्णीत किसी बैंक या वित्तीय संस्था के साथ संयुक्त / त्रिपक्षीय अनुबन्ध (विकासकर्ताओं के साथ-साथ) निष्पादित करेगा।

परन्तु यह कि भूस्वामियों द्वारा ऐसा कोई कृत्य केवल इस अनुबन्ध में दिये गये उपबन्ध के अनुसार उक्त भूमि की कुल विचारित मूल्य की प्राप्ति के पश्चात ही किया जायेगा।

अग्रेत्तर, स्वामी द्वारा उपलब्ध करायी गयी अपेक्षित सुरक्षा केवल इस परियोजना के लिए उपलब्ध करायी गयी भूमि तक ही सीमित रहेगी, अन्य सुरक्षा केवल विकासकर्ता द्वारा स्वयं ही व्यवस्थित की जायेगी।

Parvane

Rajesh Singh

Jaime

बही संख्या 1 रजिस्ट्रीकरण संख्या 6966 वर्ष 2024

Agreement
Development Agreement

प्रतिफल रु0 : 93,179,000.00

मालियत रु0 : 93,179,000.00

रजिस्ट्रेशन शुल्क रु0 25,000.00	प्रतिलिपि शुल्क रु0 100.00	इलेक्ट्रानिक प्रोसेसिंग शुल्क रु0 220.00	कुल योग रु0 25,320.00	शब्द लगभग 2,000
------------------------------------	-------------------------------	---	--------------------------	--------------------

श्री ईटीएच इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड द्वारा श्री राजेश सैनी (निदेशक) पुत्र श्री रघुबीर सिंह सैनी निवासी 406/1, इंद्रा कॉलोनी, शास्त्री मार्ग, रोहतक, हरियाणा ने आज दिनांक 06 Jul 2024 समय मध्य 4PM व 5PM को कार्यालय उपनिबन्धक हरिद्वार, प्रथम मे प्रस्तुत किया।

ईटीएच इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड द्वारा श्री राजेश सैनी (निदेशक)

उपनिबन्धक
हरिद्वार, प्रथम
06-Jul-2024

इस लेख पत्र का निष्पादन विलेख मे लिखित तथ्यों को सुन व समझकर श्री परमिन्द्र कुमार पुत्र श्री इन्द्र दास निवासी 82 उत्तम बस्ती भूपतवाला साधुबेला, तहसील व जिला हरिद्वार \ ने विक्रय धन मुबलिग रु0 93,179,000.00 प्रलेखानुसार पाकर निष्पादन स्वीकार किया। इस लेखपत्र का निष्पादन क्रेता श्री ईटीएच इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड द्वारा श्री राजेश सैनी (निदेशक) पुत्र श्री रघुबीर सिंह सैनी निवासी 406/1, इंद्रा कॉलोनी, शास्त्री मार्ग, रोहतक, हरियाणा द्वारा श्री ईटीएच इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड द्वारा श्री हरिमोहन शर्मा (निदेशक) पुत्र श्री जागराम शर्मा निवासी शास्त्री भवन, हिल बाईपास रोड, खड्डखडी हरिद्वार उत्तराखण्ड, निधी स्वीकार किया।

जिनकी पहचान श्री नूतन कुमार पुत्र श्री कल्याण सिंह निवासी आर्य नगर ज्वालापुर हरिद्वार तथा श्री सुरेन्द्र कुमार पुत्र श्री चाँद राम निवासी रुम मगर जींद हरियाणा ने की।

उपनिबन्धक
हरिद्वार, प्रथम
06-Jul-2024

8. यह कि भू-स्वामी और साथ ही साथ विकासकर्ता भावी क्रेताओं के पक्ष में साफ एवं भार मुक्त बाजारी स्वामित्व हस्तान्तरण करने का वचन देते हैं। इस प्रयोजन के लिए भू-स्वामी और साथ ही साथ विकासकर्ता भावी क्रेताओं के पक्ष में संयुक्त रूप से विक्रय/हस्तान्तरण विलेख निष्पादित करने के लिए वाध्य हैं।
9. यह कि विज्ञापनों सहित सभी विक्रय वृद्धि गतिविधियां केवल विकासकर्ता द्वारा संचालित की जायेंगी।
10. यह कि फ्लैटों/प्लॉटों/इकाईयों की सभी विक्रय प्राप्ति को भू-सम्पदा (विनियम और विकास) अधिनियम 2016 के अधीन यथा परिकल्पित पृथक बैंक खातों (रेरा के अन्तर्गत एस्करो खाता) में जमा किया जायगा और उस बैंक खातों से भू-स्वामी (यो) का अंश (प्रत्येक इकाई के विक्रय मूल्य के सापेक्ष) अधिनियम और नियमों के उपबन्धों के अनुपालन के अतिरिक्त इस अनुबन्ध के खण्ड 3 की शर्तों के अनुसार भू-स्वामी को अन्तरित किया जायगा।
11. यह कि सक्षम प्राधिकारी से अनुमादित मानचित्र के आधार पर विकासकर्ता, विक्रय योग्य क्षेत्र फल की सीमा तक मापदण्डों और मूल्य, जिस पर विकासकर्ता बाजार में बुकिंग का शुभारम्भ कर रहे हैं, अनुसार भावी क्रेताओं को अपार्टमेन्ट/इकाईयों के आवंटन का प्रस्ताव देगा तथा आवंटन पत्र जारी करेगा। अपार्टमेन्ट/इकाईयों के भावी क्रेता को दिये जाने के लिए की जाने वाली सभी औपचारिकताएं और दस्तावेजीकरण, विकासकर्ता द्वारा निष्पादित किया जायेगा।
12. यह कि कब्जा लेने के पश्चात यदि लगी हुई भूमियों के पड़ोसियों से या किसी अन्य विभाग या अन्यथा ऐसे कब्जे को सुरक्षित करने में कोई समस्या आती है तो उसे पूर्ण रूप से विकासकर्ता द्वारा व्यवहृत किया जायेगा क्योंकि विकासकर्ता द्वारा कब्जा, चौहद्दी तथा स्वामित्व, कब्जा और उक्त भूमि पर भूस्वामियों के नियंत्रण के सम्बन्ध में।
13. यह कि भू-स्वामी एतद्वारा अभिवेदन एवं पुष्टि करता है तथा अग्रेत्तर यह वचन देता है कि वह इस अनुबन्ध के जीवन की सम्पूर्ण अवधि के दौरान भूस्वामियों के भाग में उत्पन्न होने वाले भारों, दावों, और क्षतियों के विरुद्ध संप्रवतक (को) को क्षतिपूरित और हानिरहित करेगा और ऐसी घटना पर, ऐसी कमीके भू-स्वामी की जानकारी में लाये जाने की तारीख से पन्द्रह दिन की अवधि के भीतर, भूस्वामी हानियों, क्षतियों, या किसी दावे या त्रुटि को ठीक करेगा।
14. यह कि इस अनुबन्ध में चूक न होने के दिन तक भूस्वामी परियोजना के सन्निर्माण, विकास और समापन में हस्तक्षेप या अवरोध नहीं करेगा।
15. यह कि सन्निर्मित और विकसित की जाने वाली परियोजना और ईकाईयों में किसी प्रकार की त्रुटियों तथा साथ ही साथ परियोजना/ईकाईयों के विकास और सन्निर्माण में देरी के लिए विकासकर्ता पूर्ण रूप से दायी और उत्तरदायी हागो।

Parvinder

Rajesh Kumar

Joinder

बही संख्या 1 रजिस्ट्रीकरण संख्या 6966 वर्ष 2024



परमिन्द्र कुमार



ईटीएच इंफ्रा प्राइवेट
लिमिटेड द्वारा श्री
राजेश सैनी (निदेशक)



ईटीएच इंफ्रा प्राइवेट
लिमिटेड द्वारा श्री
हरिमोहन शर्मा



नूतन कुमार



सुरेन्द्र कुमार



प्रतिज्ञ एवं साक्षीगण भद्र प्रतीत होते हैं। सभी के अंगुष्ठ चिन्ह नियमानुसार लिये गये हैं।

रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी /
उप-निबंधक, हरिद्वार, प्रथम
06 Jul 2024

16. यह कि सक्षम प्राधिकारी से परियोजना के लिए समापन और / या अधिभोग प्रमाण पत्र विकासकर्ता/भू-स्वामी द्वारा प्राप्त किया जायेगा और इस सम्बन्ध में होने वाला सभी व्यय विकासकर्ता द्वारा वहन किया जायेगा।
17. यह कि इसके पश्चात इसके पक्षकार इस अनुबन्ध की किन्हीं शर्तों को परिवर्तित, संशोधित, प्रतिस्थापित या अधिभावित करना चाहें तो वे ऐसी शर्तों को इसके परिशिष्ट के रूप में अभिलिखित करेंगे, और ऐसी कोई शर्त पक्षकारों के मध्य तब तक बाध्यकारी नहीं होंगी जब तक इसके पत्येक पक्ष द्वारा उन्हें लिखित में लाया और हस्ताक्षरित नहीं किया जाय।
18. यह कि इस अनुबन्ध या उसके किसी भाग से सम्बन्धित पक्षकारों के मध्य उत्पन्न किसी विवाद की स्थिति में इसे पक्षकारों के द्वारा आपसी सहमति से नियुक्त मध्यस्थ की एकमात्र मध्यस्थता के लिए संदर्भित किया जायेगा। एकमात्र मध्यस्थ की नियुक्ति हेतु पक्षकारों की असहमति पर उसकी नियुक्ति माध्यस्थम और सुलह अधिनियम, 1996 के अनुसार न्यायालय के माध्यम से की जायेगी। मध्यस्थता, माध्यस्थम और सुलह अधिनियम, 1996 या तत्समय प्रवृत्त किसी उपान्तरण या पुनर्धिनियम के अनुसार की जायेगी।

विवरण सम्पत्ति – जो कि भूमि जिसका खसरा न0 4म/18 में से क्षेत्रफल 3413 वर्गमीटर व खसरा न0 4/17 में से क्षेत्रफल 136.66 वर्गमीटर कुल क्षेत्रफल 3549.66 वर्गमीटर है जो स्थित— उत्तम बस्ती, ग्राम भूपतवाला कलां परगना ज्वालापुर तहसील व जिला हरिद्वार अन्दर सीमा नगर निगम हरिद्वार है।

Parvinder

Rajesh Singh

Mohinder

रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1908 की धारा 32-ए के अनुपालन हेतु फिंगर प्रिंट्स

बाया हाथ प्रथम पक्ष

अंगुष्ठ

तर्जनी

मध्यमा

अनामिका

कनिष्ठका



दाया हाथ प्रथम पक्ष

अंगुष्ठ

तर्जनी

मध्यमा

अनामिका

कनिष्ठक



बाया हाथ द्वितीय पक्ष

अंगुष्ठ

तर्जनी

मध्यमा

अनामिका

कनिष्ठका



दाया हाथ द्वितीय पक्ष

अंगुष्ठ

तर्जनी

मध्यमा

अनामिका

कनिष्ठका



बाया हाथ द्वितीय पक्ष

अंगुष्ठ

तर्जनी

मध्यमा

अनामिका

कनिष्ठका



दाया हाथ द्वितीय पक्ष

अंगुष्ठ

तर्जनी

मध्यमा

अनामिका

कनिष्ठका



Pareena

Rajesh Singh

Yashika



Online Public Data Entry Summary

UKPDE2024075116571

DISTRICT NAME :हरिद्वार SRO :

उत्तराखण्ड शासन

UKPDE2024075116571 From 16 Feb 2023

6-Jul-2024

3:33:13PM

Appointment Date:

Appointment Time:

Appointment TokenNo:

Deed/Article Type :Agreement

Sub-Deed/Sub-Article :Development Agreement

Village/Location For Index :BHOPATWALAA

Village/Location/Road Selected for Circle RateList :उत्तम बस्ती (वाई नं०-2 भोपतवाला) -5.E-7 शास्त्रिकुंज मार्ग (ऋषिकेश रोड पर पुलिस

Khewat : Khatoni :

Khasra :4m/18 and 4/17

House/Flat No:

Area :3,549.6600 वर्ग मीटर

Latitude - Longitude 0.0000000000

Land Value :93,179,000.00 Construction Value :0.00

Transaction Value :93,179,000.00 Market Value :93,179,000.00

Advance :0.00 Lease Period :0.00 Avg. Rent :0.00

Stamp Duty :4,659,000.00 Regn Fees :25,000.00

Pasting Fees :100 Page :22

व्यवसायिक निर्माण का विवरण

क्र.सं निर्माण का प्रकार क्षेत्रफल

आवासीय निर्माण का विवरण

क्र.सं निर्माण क्षेत्र निर्माण का प्रकार निर्माण तल ह्रास वर्ष रक़ा

निबंधक शुल्क का विवरण

क्र.सं भुगतान की विधि धनराशि संदर्भ क्रमांक
1 Cash 25,000.00

स्टाम्प शुल्क का विवरण

क्र.सं भुगतान की विधि धनराशि संदर्भ क्रमांक जारी दिनांक स्टाम्प विक्रेता आईडी
1 e-Stamp 4,659,000.00 6-Jul-2024

Corwin

Rajesh Verma

Sharma

Appointment Date:

Appointment Time:

Appointment TokenNo:

पक्षकारों का विवरण		हस्ताक्षर	व्यवसाय	पैन नं	योबाहल नं	पहचान पत्र संख्या
पक्षकार का प्रकार	पक्षकार का विवरण					
विक्रेता / प्रथम पक्ष	श्री परमिन्द्र कुमार पुत्र श्री इन्द्र दाम निवासी 82 उत्तम वस्ती भूपतवाला साधुवेला, तहसील व जिला हरिद्वार	<i>Param</i>	Self employed		7060197401	ADHAAR : 217627368024
क्रेता / द्वितीय पक्ष	श्री ईटीएच इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड द्वारा श्री राजेश सैनी (निदेशक) पुत्र श्री रघुवीर सिंह सैनी निवासी 406/1, इंद्रा कॉलोनी, शास्त्री मार्ग, रोहतक, हरियाणा	<i>Rajesh Saini</i>	Self employed		9990321321	ADHAAR : 926438092576
क्रेता / द्वितीय पक्ष	श्री ईटीएच इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड द्वारा श्री हरिमोहन शर्मा (निदेशक) पुत्र श्री जागे राम शास्त्री निवासी शास्त्री भवन, हिल बाईपाम रोड, खडखडी हरिद्वार उत्तराखण्ड	<i>Harimohan</i>	Self employed		8006343800	ADHAAR : 556831728801
गवाह	श्री नूतन कुमार पुत्र श्री कल्याण सिंह निवासी आर्य नगर ज्वालापुर हरिद्वार	<i>Nutan Kumar</i>	Self employed		6399443344	ADHAAR : 592102721069
गवाह	श्री सुरेन्द्र कुमार पुत्र श्री चाँद राम निवासी रूप नगर जींद हरियाणा	<i>Suresnder kumar</i>	Self employed		7988866275	PAN CARD : AVRPK0180B

Deed Writer /Advocate Name :Savita Rawat Adv

भारत सरकार
Government of India

परमिंदर कुमार
Parminder Kumar
जन्म तिथि / DOB: 21/11/1973
पुरुष / Male

2176 2736 8024

आधार - आम आदमी का अधिकार

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण
Unique Identification Authority of India

पता: आनन्द इन्द दास, 82, उत्तम बस्ती
भूपनवाला हरिद्वार, हरिद्वार
सधुबेला भूपनवाला, उत्तराखंड,
249410

Address: S/O Inder Dass, 82, UTTAM
BASTI BHUPATWALA
HARIDWAR, Haridwar, Handwar,
Sadhubela Bhupatwala,
Uttarakhand, 249410

2176 2736 8024

आयकर विभाग
INCOME TAX DEPARTMENT

भारत सरकार
GOVT. OF INDIA

स्थायी लेखा संख्या कार्ड
Permanent Account Number Card

AYEPK9751C

नाम / Name
PARMINDER KUMAR

पिता का नाम / Father's Name
INDER DASS

जन्म की तारीख / Date of Birth
21/11/1973

हस्ताक्षर / Signature

भारत सरकार
Government of India

राजेश सैनी
Rajesh Saini

जन्म तिथि / DOB: 28/08/1979
पुरुष / Male

9264 3809 2576

आधार - आम आदमी का अधिकार

Rajesh Saini

भारत सरकार
Government of India

हरिमोहन शर्मा
Harimohan Sharma
जन्म तिथि / DOB: 18/02/1978
पुरुष / MALE

5568 3172 8801
VID: 9122 9092 4262 8298

मेरा आधार, मेरी पहचान

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण
Unique Identification Authority of India

पता: जगे राम, 295, शास्त्री भवन पहाड़ी बे बंगला
खडखडी, हरिद्वार, हरिद्वार,
उत्तराखंड - 249401

Address: S/O: Jage Ram, 295, shastri bhawan hill bay
pass Khadkhadi, Haridwar, Haridwar,
Uttarakhand - 249401

5568 3172 8801
VID: 9122 9092 4262 8298

आयकर विभाग
INCOME TAX DEPARTMENT

भारत सरकार
GOVT. OF INDIA

HARIMOHAN SHARMA

JAGE RAM SHASTRI

18/02/1978
Permanent Account Number
AHCPM2764J

हस्ताक्षर / Signature

भारत सरकार
Government of India

राघुबीर सैनी
Raghubir Saini

जन्म तिथि / DOB: 28/08/1979
पुरुष / Male


9264 3809 2576

आधार - आम आदमी का अधिकार


अतः यह विलेख लिख दिया कि प्रमाण रहे और समय पर काम आवे।
तहरीर तारीख 06.07.2024 ई0




हस्ताक्षर प्रथम पक्ष




हस्ताक्षर द्वितीय पक्षगण

गवाह 

नूतन कुमार पुत्र श्री कल्याण सिंह
निवासी आर्य नगर ज्वालापुर
तहसील व जिला हरिद्वार
आधार न0 5921 0272 1069

गवाह 

सुरेन्द्र कुमार पुत्र श्री चाँद राम
निवासी रूप नगर जींद हरियाणा
पेन- AVRPK0180B

रचियता



SAVITA RAWAT
Advocate
Reg. No. UK 103/2017

वही संख्या 1 जिल्द 8,396 के पृष्ठ 149 से 170 पर क्रमांक 6966

पर आज दिनांक 06 Jul 2024 को रजिस्ट्रीकरण किया गया।


रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी /
उप-निबंधक, हरिद्वार, प्रथम
06 Jul 2024

